


जंगल की आग के लिए तैयारी



आग गर्म है!

गर्मी आग की लपटों से ज़्यादा खतरनाक है। आँख के स्तर पर कमरे का तापमान 600 डिग्री तक बढ़ सकता है। इस अत्यंत गर्म हवा में सांस लेने से आपके फेफड़े झुलस जाएंगे और कपड़े पिघल कर आपकी त्वचा से चिपक जाएंगे।



ऑक्सीजन

सूखी या मृत वनस्पति से भरा हुआ क्षेत्र

एक चिंगारी

जंगल की आग के लिए उत्तम परिस्थितियाँ

आग घातक है!

आग की लपटों की तुलना में आग से उत्पन्न धुएँ और विषैली गैसों से अधिक लोगों की मौत होती है, और दम घुटना आग से होने वाली मौतों का मुख्य कारण है।

आग तेज़ है!

30 सेकंड से कम समय में आग की एक छोटी लपट एक बड़ी आग में बदल सकती है। मिनटों में एक मकान आग की लपटों में घिर सकता है।

आग अंधेरी है!

शुरु में आग तेज़ चमकती है, लेकिन जल्द ही काला धुआँ और पूर्ण अंधकार पैदा कर देती है।

याद रहे, यदि आपको लगता है कि आप खतरे में हैं, तो चेतावनी की प्रतीक्षा किए बगैर तुरंत निकल जाएँ!

जंगल की आग की चेतावनी और आपको क्या करना चाहिए:

रेड फ्लैग चेतावनी - सतर्क रहे

आग की स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं (शुष्क, गर्म, हवादार)।



- ✓ समाचार, सरकारी वेबसाइटों, और प्रदेश की चेतावनी प्रणाली, चेतावनी एससीसी (एलर्ट एसीसी) के ज़रिए अपने परिवेश के प्रति सतर्क रहें। साइन अप करें: www.alertscc.com
- ✓ चेतावनी सुनना सुनिश्चित करने के लिए अपने फ़ोन की आवाज़ को तेज़ रखें।
- ✓ आपके शहर से जानें कि उनकी शहर खाली करने की योजनाएं क्या हैं और आपको कहाँ जाना चाहिए।
- ✓ ज्वलनशील वस्तुओं को अपने घर के अगल बगल से दूर ले जाएँ, छत और नालियों से सूखी पत्तियाँ हटाएं, और बाहरी छेदों को ढक दें।

निकासी चेतावनी - तैयार रहें।

आग नज़दीक है।



अभी निकल जाएँ यदि आप वायु गुणवत्ता के प्रति संवेदनशील हैं, आपको अतिरिक्त समय चाहिए, या आपके पास बड़े जानवर हैं।

- ✓ जानवरों और बच्चों को निकासी के लिए तैयार करें।
- ✓ परिवार के जो सदस्य घर पर नहीं हैं, उनके सम्पर्क में रहें और अपने पड़ोसियों को चेतावनी दें।
- ✓ आवश्यक दस्तावेज़ों और व्यक्तिगत ज़रूरतों के लिए आवश्यक सामान वाले बस्ते तैयार रखें।
- ✓ योजना बनाएं कि यदि निकलना पड़ा, तो आप कहाँ जाएंगे और वहाँ कैसे पहुंचेंगे। पेट्रोल की टंकी कम-से-कम आधी भर कर रखें या परिवहन का इंतज़ाम करें।

निकासी आदेश

तुरंत निकलें!




आग यहाँ तक फैल गई है, आप खतरे में हैं! अब आपके पास सामान बांधने या तैयारी का समय नहीं है, उस जगह से अभी निकलें!

- ✓ जाते समय दरवाज़े और खिड़कियाँ बंद करें।
- ✓ घर के अंदर और बाहर की बतियाँ जली हुई छोड़ दें ताकि दमकलकर्मी आपके घर को देख सकें।
- ✓ सारे जानवरों को अपने साथ ले जाएँ।
- ✓ किसी को बताएं कि आप निकल रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं।

जंगल की आग निकासी: क्या उम्मीद करें



अपनी और अपने प्रियजनों की रक्षा करें। जंगल की आग से निकलने के दौरान क्या अपेक्षा करनी चाहिए, यह जानकारी आपको शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होने में मदद कर सकती है।



निकासी के दौरान आपको निम्नलिखित की उम्मीद करनी चाहिए:

- रोशनी और सायरन के साथ पहले पहुंचने वाले कई बचावकर्मी।
- असामान्य रूप से अधिक यातायात
- ! जब संभव हो तो कई लोगों एक ही कार में जाएं।
- घना काला धुआँ जिसके पार आप देख नहीं सकते।
- ! ध्यान से वाहन चलाएं!

निकलते समय, आपके सामना हो सकता है:

- गिरे हुए पेड़ों, खम्भों, और बिजली के तारों से।
- ! गिरे हुए बिजली के तारों के ऊपर वाहन न चलाएं।
- संप्रेषण के मुद्दे
- ! कॉल करने की बजाय टेक्स्ट और स्थानीय कॉल की बजाय क्षेत्र/ राज्य से बाहर कॉल करें।
- एटीएम और अन्य सेवाएं बंद हैं।
- ! निकासी चेतावनी या रेड फ़्लैग चेतावनी मिलने पर नकदी निकाल लें और पेट्रोल भरवा लें, निकासी आदेश का इंतज़ार न करें।

यदि आपको एक सार्वजनिक आश्रय में जाना ही पड़ जाए, तो याद रखें कि वे:

- ऐसी जगहें हैं जहाँ बहुत सारे लोग और बहुत कम निजता होती है, जहाँ मादक द्रव्यों, शराब, और हथियारों की अनुमति नहीं होती।
- सेवा करने वाले पशुओं का स्वागत करते हैं और पालतू पशुओं को आश्रय देते हैं। टीकाकरण रिकॉर्ड और टीके के डिब्बे सहित आपूर्ति सामग्री अपने साथ ज़रूर लाएँ।
- आपको समझ आने वाली भाषा में आपदा जानकारी और सहायता के आपके अधिकार का समर्थन करते हैं चाहे आपकी आप्रवासन स्थिति या आय कुछ भी हो।

घर वापस न लौटें और निम्नलिखित तरीकों के ज़रिए सूचित रहें:

- ✓ स्थानीय रेडियो और टीवी समाचार सुन कर
- ✓ सहायता संसाधनों के लिए स्थानीय सरकारी वेबसाइटों, उनके सोशल मीडिया, और अन्य विश्वसनीय स्रोतों की जांच कर के।
- ✓ बीमा कंपनी से संपर्क करें।
- ✓ जानकारी और संसाधन मुहैया कराने वाले स्थानीय संगठन।
- ✓ वायु गुणवत्ता का निरीक्षण करें।

जंगल की आग से कैसे निपटें



यदि जंगल की आग से आपके घर को खतरा है

यदि ऐसा करने के लिए कहा जाए (निकासी आदेश दिया गया है) या यदि आपको लगता है कि आपका जीवन खतरे में है, तो निकल जाएँ। जब तक अधिकारी यह न कहें कि सब सुरक्षित है, तब तक वापस न आएं।



निकासी चेतावनी मिलने पर

- अपने घर से 5 फीट की दूरी तक ज्वलनशील सामान हटा दें।
- बरामदे का फर्नीचर अंदर रख दें।
- अपनी गाड़ी को बाहर की तरफ पार्क करें और उसमें कम-से-कम आधा टंकी पेट्रोल और आपका निकासी बैग तैयार रखा हो या परिवहन के लिए योजना बनाएं।
- बगीचे के पाइप को बाहरी नल से जोड़ें।

यदि आप निकलते हैं:

- घर के अंदर और बाहर की बतियां जली हुई छोड़ दें ताकि दमकलकर्मी आपके घर को देख सकें।
- निकलते समय सभी खिड़कियां/दरवाजे और वातानुकूलन बंद करें।
- लंबी पतलून, लंबी बाँह वाली कमीज़, भारी जूते या बूट, टोपी, एन95 मास्क, और धूप का चश्मा या चश्मा पहनें।

यदि आप फंस गए हैं



- आप एक इमारत या वाहन के अंदर ज़्यादा सुरक्षित हैं।
- पहाड़ से नीचे की ओर जाएँ, हवा की दिशा में जाएँ और खाली खुली जगहों पर जाएँ जहाँ बहुत कम या कोई वनस्पति न हो। चौड़ी सड़कें, पार्किंग स्थल, इत्यादि खोजें।
- संभव हो तो अपनी गाड़ी सड़क पर न छोड़ें। सड़क में किसी मोड़ पर पार्क करें और आश्रय के अन्य विकल्पों पर विचार करें।
- अंतिम विकल्प के रूप में ही पैदल चल कर निकलें।

खुद को धुएँ से बचाएँ

धुएँ से आपकी आँखों को नुकसान हो सकता है, आपके श्वसन तंत्र में परेशानी हो सकती है, और हृदय और फेफड़ों की पुरानी बीमारियां बढ़ सकती हैं।



- धुएँ के बारे में समाचार या स्वास्थ्य चेतावनी सुने और देखें। स्थानीय वायु की गुणवत्ता सूचना पर ध्यान दें।
- किसी सुरक्षित इलाके के अंदर रहें या किसी ऐसे सामुदायिक भवन में जाएँ जहाँ धुएँ का स्तर कम हो।
- बाहरी धुएँ को अंदर आने से रोकने के लिए खिड़कियां और दरवाजे बंद करके घर के अंदर की हवा को साफ़ रखें। अपने घर या गाड़ी में एयर कंडीशनर को रीसाइकिल या री-सर्कुलेट मोड में इस्तेमाल करें।
- मोमबत्ती, अग्निकोष्ठ, गैस के चूल्हे जैसी कोई चीज़ इस्तेमाल न करें जो जलती हो और घर के अंदर वायु प्रदूषण बढ़ाती हो। वैक्यूम का इस्तेमाल न करें क्योंकि इससे आपके घर के अंदर पहले से ही मौजूद कणों में हलचल हो जाती है।
- आप जिस हवा में सांस लेते हैं, उससे कणों को दूर रखने के लिए एन95 मास्क का उपयोग करें।
- यदि गाड़ी चला रहे हैं, तो कार की खिड़कियां ऊपर चढ़ा दें और एयर वेन्ट बंद कर दें।
- यदि आप धुएँ के प्रति संवेदनशील हैं, तो जल्दी निकल जाएँ।
- एक अंदरूनी वायु छनित्र खरीदने या बॉक्स फैन फ़िल्टर बनाने पर विचार करें।

यहाँ और जानें:

<https://www.airnow.gov/>
<https://cadresv.org/resources/air-quality/>